

August 6, 2021

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: 533320

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Symbol: JUBLINDS

Sub: Unaudited Financial Results - Newspaper Publications

Dear Sirs,

Further to our letter dated August 5, 2021 regarding approval of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2021; please find enclosed the newspaper advertisements published, in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi) on August 6, 2021.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jubilant Industries Limited

Abhishek Mishra Company Secretary

A Jubilant Bhartia Company



Jubilant Industries Limited

Plot No. 15, Knowledge Park II, Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar - 201 306, UP, India Tel: +91 120 7186000 Fax: +91 120 7186140 www.jubilantindustries.com Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha-244 223 UP, India CIN: L24100UP2007PLC032909





SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

OFFICE OF THE ADDL. D.H.A. (Hosp. Administration Dr. Shyama Prasad Mukherjee Civic Centre, E-1 Block (18th Floor)
Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi-110002
Tel: 23226824, 23226859

No. Addl. DHA/M&TB/SDMC/2021/574 Dated: 04/08/2021 Notice Inviting Tender

On line Tenders are invited for Fixing Rate, Contract and Agency for Drugs etc., for institutions under Health Department of SDMC for the year 2021-24. Two Bids System Tenders (Techno-commercial & Financial) are accepted under 04 Groups, -A, B, C, D. Approx. liability of the Tender is Rs. 17.00 Crore each year. Cost of Tender is Rs. 2000/-, for each Group. EMD for each group is as detailed in Tender Document; Tender will become live on 06/08/2021 at 10 AM; Tender Closes on 27/08/2021 at 03.00 PM. Pre Bid Meeting will be convened on 11.08.2021 at 11.30 AM in the Meeting hall of 23rd Floor, Other details of Terms & Condition of Tender are available on the Website: www.mcdonline.nic.in while Tenders can be downloaded from e-tendering site of SDMC: https://etenders.gov.in Ro No. 36/DPI/S/2021-22 Addl. DHA (M&TB). SDMC

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369 Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi -110019 Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida - 201304, UP, India Telephone: +91 11 26436336 ite: www.hcltech.com; E-mail ID: investors@hcl.com

NOTICE OF THE 29[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HCL Technologies Limited (the "Company") will be held on Friday, 27th day of August, 2021 at 11.00 A.M. (IST) through VC / OAVM to transact the businesses, as set out in the

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular dated January 13, 2021 read with circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as the "MCA Circulars"), have permitted the holding of the AGM through VC/OAVM, without physical presence of the members at a common venue. In compliance with MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder, and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

In accordance with the MCA Circulars and circular dated January 15, 2021 read with circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the notice of the AGM setting out the businesses to be transacted at the meeting together with the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2021 have been sent electronically on Wednesday, August 4, 2021 to all the members whose e-mail addresses were registered with the Company / Depository Participant(s) Members may note that the Notice of the AGM and the Annual Report (2020-21) are also available on the website of the Company www.hcltech.com, websites of the Stock Exchanges, namely, National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL'), the agency engaged for providing e-voting (including emote e-voting) facility www.evoting.nsdl.com.

E-voting (including remote e-voting)

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to offer e-voting facility to its members to enable hem to cast their votes electronically on the resolutions set forth in the Notice of the AGM. The members holding shares either in physical form or in electronic mode as on Friday, August 20, 2021 ('Cut-off date') and who are otherwise not barred to cast their vote, are entitled to cast their vote electronically

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the completion of dispatch of the Notice of the AGM and holds shares on the Cut-off date may obtain a login ID and password to cast his/her vote and for attending the AGM, by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for e-voting (including remote e-voting) is given in the Notice of the AGM

The Company has appointed M/s. Nityanand Singh & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting (including remote e-voting) process in a fair and

The remote e-voting facility will be available during the following voting period

Date and time of commencement of remote e-voting: From 09:00 A.M. (IST) or Monday, August 23, 2021.

Date and time of end of remote e-voting: At 05:00 P.M. (IST) on Thursday, August 26, The remote e-voting module will be disabled by NSDL and no remote e-voting will be

allowed thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the member during above mentioned remote e-voting period, the member shall not be allowed to change i subsequently or cast the vote again, however, he / she may attend the AGM through VC/OAVM. Further, the members, who will be present in the AGM through VC/OAVM and who have not cast their votes during the remote e-voting period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.

In case of any queries/ grievances relating to e-voting (including remote e-voting) or ioining the AGM through VC/OAVM, please refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre. Manager of Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4" Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, or write at their designated e-mail IDs - pallavid@nsdl.co.in or sonis@nsdl.co.in or contact at Telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559.

For HCL Technologies Limited Date: August 5, 2021 Manish Anand Place: Noida (U.P.) Company Secretary



IndiaMART InterMESH Limited

CIN: L74899DL1999PLC101534 Regd. Office: 1st Floor, 29- Daryaganj, Netaji Subhash Marg, New Delhi- 110002

Corp. Office: 6th Floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector-135, Noida - 201305, U.P.

Website: www.indiamart.com; Email: cs@indiamart.com; Ph. No: 011-45608941 NOTICE OF THE 22ND ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the Twenty Second (22nd) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of IndiaMART InterMESH Limited ('Company') will be held on Tuesday, August 31, 2021 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Video Means ('OAVM') facility, without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2020-21 ('Annual Report') will be sent only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participants ('DP'). The Notice of the AGM and Annual Report will also be made available on the Company's website at http://investor.indiamart.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its Members, through e-Voting services of NSDL, to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means. In this regard, Members are hereby informed that:

- a) The remote e-Voting period will commence on Friday, August 27, 2021 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, August 30, 2021 (5:00 p.m. IST). The remote e-Voting facility shall be disabled by NSDL thereafter and shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change i
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Tuesday, August 24, 2021, shall only be entitled to vote through remote e- Voting/e-Voting at the AGM.
- Any person, who acquires equity shares and becomes a member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/he existing User ID and password to cast the vote.
- The Members who have already casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again through e-Voting at the AGM.
- e) The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paidup equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only
- Members may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the Notice of the AGM. Members whose email ids are not registered with the Company/DPs are requested to register their e-mail address with their respective DP for receiving Annual Reports and other communications through electronic mode.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members who need assistance before or during the AGM and e-voting user manual for Members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads Section'. You can also contact NSDL on toll free number 1800-1020-990 and 1800 22 44 30 or Ms. Soni Singh, Assistant Manager, NSDL, at designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in, who will address the grievances related to electronic

Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the Notice of the AGM. For IndiaMART InterMESH Limited

Place: Noida Date : August 5, 2021 Company Secretary & (



Jubilant Industries Limited

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, Distt. Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24100UP2007PLC032909 Website: www.jubilantindustries.com | E-mail: investorsjil@jubl.com | Ph.: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021

					(₹ in Lakhs
			Quarter Ended		Year Ended
SI No.	Particulars	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021
140.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	21,158	19,710	9,381	62,148
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items) from continuing operations	2,743	673	(272)	2,592
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items) from continuing operations	2,743	673	(272)	2,592
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items from continuing operations	2,185	(2,775)	(272)	(856)
5.	Net Profit/(Loss) for the period from discontinued operations	(42)	46	(38)	(73)
6.	Net Profit/(Loss) for the period from continuing operations and discontinued operations	2,143	(2,729)	(310)	(929)
7.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,153	(2,727)	(343)	(956)
8.	Equity Share Capital	1,503	1,503	1,503	1,503
9.	Reserves excluding Revaluation Reserve				7,000
10.	Earnings per share of ₹ 10 each from continuing operations				
	(a) Basic (₹)	14.54	(18.47)	(1.82)	(5.70)
	(b) Diluted (₹)	14.45	(18.47)	(1.82)	(5.70)
	Earnings per share of ₹ 10 each from discontinued operations				
	(a) Basic (₹)	(0.28)	0.30	(0.24)	(0.49)
	(b) Diluted (₹)	(0.28)	0.30	(0.24)	(0.49)
	Earnings per share of ₹ 10 each from continuing operations and discontinued operations				
	(a) Basic (₹)	14.26	(18.17)	(2.06)	(6.19
	(b) Diluted (₹)	14.17	(18.17)	(2.06)	(6.19)

1. The Standalone Financial Results are available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key Standalone Financial information of the Company is as

					(VIII Lakiis
٥.			Year Ended		
SI No.	Particulars	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021
10.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	-	-	-	-
2.	Profit/(Loss) for the period before tax from continuing operations	-	-	-	-
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	-	-	-	-
4.	Net Profit/(Loss) for the period from discontinued operations	(40)	48	(36)	(41)
5.	Net Profit/(Loss) for the period from continuing operations and discontinued operations	(40)	48	(36)	(41)

- 2. The above unaudited financial results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on records by the Board of Directors at its meeting held on 05th August, 2021
- 3. The above is an extract of the detailed format of the unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited consolidated & standalone financial results for the quarter ended June 30, 2021 alongwith review report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com

for Jubilant Industries Limited

Manu Ahuia CEO & Managing Director

Manoj Bhargava

GUJARAT GAS LIMITED

Regd. Office: Gujarat Gas CNG Station, Sector-5/C, Gandhinagar-382006, District: Gandhinagar, Gujarat. Tel: +91-79-26462980 Fax: +91-79-26466249 Web site: www.gujaratgas.com Email: sandeep.dave@gujaratgas.com CIN: L40200GJ2012SGC069118



Place: NOIDA

Date: 05th August, 2021

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2021

							₹ in Crores	
			Standalone		Consolidated			
Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	Quarte	Quarter ended		
140.		30-06-2021	30-06-2020	31-03-2021	30-06-2021	30-06-2020	31-03-2021	
		Un-a	udited	Audited	Un-a	udited	Audited	
1	Total income from operations	3,087.18	1,122.25	10,116.31	3,087.21	1,122.28	10,116.44	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items)	637.73	78.28	1,704.70	637.76	78.31	1,704.83	
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items)	637.73	78.28	1,704.70	637.76	78.31	1,704.83	
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	476.15	58.66	1,275.50	476.69	59.07	1,277.72	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising	472.37	58.94	1,278.07	472.91	59.30	1,280.26	
	Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive							
	Income (after tax)]							
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- each)	137.68	137.68	137.68	137.68	137.68	137.68	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the			4,344.97			4,373.88	
	Balance Sheet)							
8	Earnings Per Share in ₹ (Face Value of ₹ 2/- each)							
	(not annualised for Quarter)							
	Basic (₹)	6.92	0.85	18.53	6.92	0.86	18.56	
	Diluted (₹)	6.92	0.85	18.53	6.92	0.86	18.56	

Note:

- The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read together with the Companies (Indian Accounting Standards -Ind AS) Rules issued thereafter and other accounting principles generally accepted in India. These financial results are presented in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time along with other relevant rules issued thereunder.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the same is available on the Stock Exchange websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on Company's website www.gujaratgas.com.
- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 5th August, 2021 at Gandhinagar, Gujarat.

Previous period figures have been reclassified / regrouped wherever considered necessary to conform to the current period figures. For and on behalf of Board of Directors **Gujarat Gas Limited** Sanjeev Kumar, IAS

S. N.	Particulars	For the Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	For the Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	For ye Ende 31.03.2 (Audite
1	Total income from operations (net)	800.39	370.03	315
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	1.99	-10.17	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	1.99	-10.17	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	1.99	-10.17	
5	Total comprehensive income for the period {Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)}		-10.17	,
6	Equity Share Capital	330.25	330.25	33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			-1
8	Earnings Per Share (of Re.10/- each) (for continuing and discontinued operation)			
	Basic:	0.06	0.31	
	Diluted:	0.06	0.31	
June Req the	above is an extract of the detailed format of Unaudited e,2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 3: uirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid BSE's website, i.e., www.bseindia.com and on the Compa ve results are prepared in accordance with the Companies (I	Listing and Ot ancial Results www.amspolyi	her Disclo is availab mers.com	

AMS Polymers Limited (Formerly, Sai Moh Auto Links Ltd)
CIN: L34300DL1985PLC020510

GAYATRI BIOORGANICS LIMITED

Regd. Office: B3, Third Floor, 6-3-1090, T.S.R. Towers, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad -500 082, Telangana, India. Website: www.gayatribioorganics.com CIN: L24110TG1991PLC013512

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021 (Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 30.06.2020	Quarter ended 31.03.2021
Total Income from Operations (Gross)			
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(12.48)	(11.89)	(14.75)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(12.48)	(11.89)	(14.75)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(12.48)	(11.89)	(14.75)
Total comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	(12.48)	(11.89)	(14.75)
Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	7,878.81	7,878.81	7,878.81
Earnings Per Share (of ₹ 10/-each) (for continuing and discontinued operations) Basic and Diluted (in ₹):	(0.02)	(0.02)	(0.02)

Note:

Place: Hyderabad

The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Unaudited financials Prepared. The full format of the said quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on Company's website: www.gayatribioorganics.com

> By Order of the Board of Directors For Gayatri Bioorganics Limited Chairman

Place: Gandhinagar Date: 5th August, 2021 **Managing Director**

लॉन्ग कोविड एक 'खामोश' महामारी

हिन्दुस्तान



नई दिल्ली | **हिन्दुस्तान ब्युरे**

कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बावजूद दुनियाभर में लाखों लोग लॉन्ग कोविड से पीड़ित हैं। हर देश में ऐसे पीड़ितों की भारी संख्या को देखते हुए इसे अपने आप में एक 'खामोश' महामारी करारदिया जा रहा है। लॉन्ग कोविड से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे अधिक अमेरिका, भारत

और ब्रिटेन में है। इसके चलते अस्पताल में भर्ती कराने और गहन ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। अमेरिका में हुए अध्ययन के मुताबिक लाखों अमेरिकी पीड़ित हुए हैं। अमेरिका पहला देश है जिसने लॉन्ग कोविड के मरीजों को शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में शामिल किया है।

लॉन्ग कोविड से आशय कोरोना से ठीक होने के बावजूद कई महीनों तक शारीरिक समस्याओं का सामना करने से है। ये स्वाद व गंध की क्षमता में कमी या बदलाव से लेकर गंभीर स्तर की होती हैं।

अंगों को नुकसान

लॉन्ग कोविड क्यों होता है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ लोगों का इम्युन सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो वह ना कोरोना वायरस को मारता है, बल्कि शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है। दूसरी थ्योरी यह है कि संक्रमण से उबरने के बावजूद कोरोना निष्क्रिय रूप से शरीर में पड़ा रहता है और अंगों को नकसान पहुंचाता है जैसे कि हरपीज वायरस के केस में ऐसा होता है।

ज्यादा उम्र वालों को खतरा

इस मुद्दे पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि यह काफी हद तक उम्र पर निर्भर करता है। विश्लेषण के मुताबिक 20 से 30 साल की उम्र के लोगों में एक-दो फीसदी लोग लॉन्ग कोविड से पीडित पाए गए, जबिक 60 साल पार वालों में यह प्रतिशत पांच फीसदी पाया गया।

भारत में पीड़ितों की बड़ी संख्याः देश में बड़ी संख्या में लोग लॉन्ग कोविड हर 20 में से एक को भर्ती कराने की जुरूरत

ब्रिटेन में कार्यरत डॉ. माइकल फर्टल मैन कहते हैं कि कोरोना से उबरने के बाद लॉन्ग कोविड की समस्या से पीड़ित हर 20 लोगों में से एक को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। डॉ. माइकल के मताबिक इससे पीड़ित लोगों में हृदयाघात की समस्या. भी देखने को मिल रही है। लॉन्ग कोविड से जुड़े प्रमुख तथ्य ये हैं: सौ से अधिक

लाख के करीब लाख ब्रिटिश अमेरिकी लॉन्ग नागरिक तरह-तरह की कोविड से पीड़ित हुए

वुहान में एक चौथाई

लोग अब भी पीडित

महामारी के पहले केंद्र चीन

के वुहान शहर में संक्रमण

से ठीक होने वाले एक

फीसदी से अधिक अस्पताल में भर्ती भारतीय इससे समस्याओं से जुझे पीड़ित हुए

शामिल है। संक्रमण से उबर

चुकी अमेरिकी अभिनेत्री एलिसा

मीलानो कहती हैं–कोरोना से

कोविड के . बालों का तेजी से गिरना बीमारी के प्रमुख लक्षण लॉन्ग कोविड के प्रमुख लक्षणों में **5.** सिर और सीने में दर्द **1.** सांस फूलना एकाग्रता अधिक मात्रा में बाल झड़ना भी

चौथाई लोग आज भी तरह-ठीक होने के बाद प्रतिदिन कंघी तरह की समस्याओं का करने के दौरान मेरे सिर के बाल सामना कर रहे हैं। बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं।

से पीड़ित हैं। एम्स के निदेशक रणदीप मुताबिक संक्रमण के कारण अस्पताल गुलेरिया के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के में भर्ती लोगों में से 40 से 60 फीसदी

लोगों ने ठीक होने के 12 हफ्ते बाद तक

6. जोड़ों में

सुस्ती

स्वाद-गंध की क्षमता खोना और उच्च कोलेस्ट्रॉल

में कमी

याददाश्त

ब्रिटेन जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए राहत

नई दिल्ली। ब्रिटेन जाने वाले भारतीय नागरिकों को राहत मिली है। ब्रिटेन ने कोरोना नियमों में छूट देते हुए भारत को लाल सूची से हटाकर एम्बर सूची में शामिल कर दिया है।

यह नियम आठ अगस्त से प्रभावी होगा। लाल सची में शामिल होने के बाद भारतीय यात्रियों को होटल में 10 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पडता था, लेकिन अब अम्बर सुची में शामिल होने पर घर पर ही 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन

डल्टा खरूप का प्रकोप १३५ देशों में

संयुक्त राष्ट्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक कोरोना का बेहद संक्रामक डेल्टा स्वरूप को प्रकोप 135 देशों में सामने आ चुका है। डब्ल्यएचओ द्वारा वैश्विक महामारी विज्ञान अपडेट में बताया गया कि 132 देशों में बीटा स्वरूप

और 81 देशों में गामा स्वरूप सामने आया है।

बूस्टर डोज न लगे तो हर देशके १०% लोगों को टीका

आह्वान नई दिल्ली **हिन्दुस्तान ब्यूरो**

पूरी दुनिया में कोविड-19 टीके की ब्रस्टर डोज देने को लेकर बहस छिड़ गई है। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधोनम गेब्रेयेसस ने सितंबर तक बस्टर डोज पर रोक लगाने

की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया के हर देश की कम से कम 10 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमीर देशों और गरीब देशों में टीकाकरण के प्रतिशत में जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को पाटने के लिए बूस्टर डोज पर रोक लगाना जरूरी है। वैक्सीन की दो डोज ले चुके लोगों को बस्टर डोज देने से संक्रमण के प्रसार में

कमी आएगी यह बात साबित नहीं हुई है। इन देशों ने शुरू की प्रक्रिया : इजरायल, फ्रांस, जर्मनी, मध्य एशिया के कुछ देशों में बुस्टर डोज देने की प्रक्रिया तीसरी डोज लगाने की तैयारी

में अमेरिका और ब्रिटेन

डब्ल्यएचओ के प्रमख टेडोस अधोनम गेब्रेयेसस की अपील के बावजूद अमेरिका व ब्रिटेन बूस्टर डोज देने पर अड़े हैं। डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दोनों देश तीसरी डोज लगाने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिका ने किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक खुराक दान की है।

जमीन आसमान का अंतरः डब्ल्युएचओ के प्रमुख ने कहा कि अमी देशों में प्रति 100 लोगों को टीके की 100 खुराक दी जा चुकी है, जबकि गरीब देशों में प्रति 100 व्यक्तियों पर सिर्फ 1.5 खुराक दी जा सकी है।

यूपी व अमेरिका के बीच 'सिस्टर सिटी' का रिश्ता बनाने का प्रस्ताव

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

पांच सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के साथ कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधि मंडल ने नोएडा व आगरा को अमेरिका के शहरों के साथ 'सिस्टर सिटी' के रूप में विकास के लिए एमओयू करने का सुझाव दिया। साथ ही अयोध्या, काशी, मथुरा व प्रयागराज में धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाओं पर भी उत्सुकता दिखाई।

यह मुलाकात विधानभवन स्थित उपमुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष में हुई। अमेरिकी दुतावास में उत्तर भारत कार्यालय के निदेशक माइकल रोसेंथाल के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधि मंडल ने यूपी और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को और मजबूत करने पर विचार किया। उप मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने युपी में बढ़ रही ढांचागत सुविधाओं. उद्योगों के संबंध में स्पष्ट नीति, कानून व्यवस्था, नई शिक्षा नीति, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की

उन्होंने कहा कि मोबाइल का 45 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश का है। मोबाइल उपकरण

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि

पीडिता की जांघों के बीच की

गई कोई भी गलत हरकत भी

अपराध के दोषी की अपील

पर सुनाए गए फैसले में यह

टिप्पणी की। इस मामले में

निचली अदालत ने एक व्यक्ति

को बलात्कार का दोषी ठहराया

था, क्योंकि उसने अपने पड़ोस

में रहने वाली नाबालिग लडकी

के शरीर के विभिन्न अंगों के

नैनीताल | **संवाददाता**

मातृत्व सुख से वंचित महिला

ने सामहिक दुष्कर्म के मामले

में जेल में 20 साल की सजा

काट रहे पति की अंतरिम

जमानत अर्जी नैनीताल उच्च

न्यायालय में दाखिल की है।

उच्च न्यायालय के मुख्य

न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस

चौहान और न्यायमूर्ति

आलोक वर्मा की खंडपीठ ने

इस मामले में खंडपीठ ने

न्यायमित्रों से राय मांगी है कि

मामले में सुनवाई की।]

हाईकोर्ट ने दष्कर्म के

दुष्कर्म के समान है।

अंगों के साथ छेडछाड भी

दुष्कर्म के समान : कोर्ट

मातृत्व सुख के लिए पति

की जमानत को याचिका

साथ गलत तरीके से छेड़छाड़

करके उसका यौन उत्पीडन

किया था। न्यायमुर्ति के विनोद

चंद्रन और न्यायमुर्ति जियाद

रहमान की पीठ ने सोमवार को

फैसला सुनाया, पीड़िता की

जांघों के बीच में यौनाचार जैसा

कोई भी कृत्य महिला के शरीर

के साथ छेड़छाड़ है और यह

दुष्कर्म के अपराध के समान है।

जब इस प्रकार जांघों के बीच

यौनाचार जैसा कोई कृत्य किया

जाता है तो वह आईपीसी की

धारा 375 के तहत परिभाषित

क्या कैदी के बच्चे को दुनिया

में लाने की अनुमति दी जा

सकती है ? इस मामले में जेल

में बंद व्यक्ति के अधिकारों के

अलावा, पत्नी के अधिकारों,

इस तरह की व्यवस्था से पैदा

हए बच्चे के अधिकारों की

जानकारी जुटानी जरूरी है।

क्योंकि बाद में बच्चा अपने

पिता के सानिध्य में रहने का

अधिकार मांगेगा, जो पिता कैद

में है। ऐसे में बच्चे का पालन-

पोषण मुश्किल होगा। अकेली

मां, बच्चे का भरण-पोषण कैसे

बलात्कार के समान होगा।

अमेरिकी विवि का ऑफ कैंपस बनाने का भी प्रस्ताव दिया

प्रतिनिधि मंडल ने यूपी में अमेरिका के बड़े विश्वविद्यालयों के ऑफ कैंपस बनाने और यूपी के विश्वविद्यालयों तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ वर्चअल शिक्षण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव भी पेश किया। माइकल रोसेंथाल ने कहा कि पिछले चार वर्ष<u>ो</u> में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने डॉ . शर्मा को अमेरिका आर्ने का निमंत्रण भी दिया। साथ ही युपी में शिक्षा तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हुए सकारात्मक सुधारों की प्रशंसा की। नई शिक्षा नीति को उन्होंने संभावनाओं से युक्त बताया। उन्होंने यूपी में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू होने पर बधाई भी दी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल ट्रैविस कोबर्ली, कवलीन चथवाल, जुई भंडारी व कशिश त्यागी आदि मौजूद थे।

बनाने वाले 55 प्रतिशत उत्पादक युपी में है। डाटा सेंटर के संबंध में नीति निर्धारण के बाद 13 कंपनियों ने यूपी में 20 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। कोरोना काल में भी यपी में 65 हजार करोड का निवेश हुआ, जिसमें से 17 हजार करोड़ का विदेशी निवेश

कार्यालय जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी, अमरोहा

2. दिल की

धड़कन बढ़ना

विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 682-756/ टास्क फार्स 2/ई-लाटरी/ 2021-22/ दिनांक अगस्त 04, 2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अमरोहा में नवसृजित विदेशी मदिरा दुकान-कांठ रोड बाईपास ढक्का एवं बीयर की दुकान क्रमशः कांठ रोड बाईपास ढक्का, खेड़का, जमना-बसेड़ा व पछादिया दुकानों का व्यवस्थापन तृतीय चरण की ई-लाटरी के माध्यम से कराया जाना है।ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2021 (मध्यान्ह 12:00 बजे) से दिनांक 11.08.2021 (सांय 05:00 बजे तक) ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑन लाईन आमंत्रित किये जाते है तथा दुकानों की ई-लाटरी दिनांक 17.08.2021 को समय अपरान्ह 01:00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार अमरोहा में निर्धारित है।

जनपद में मिदरा की फुटकर बिक्री की दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाईट https://amroha.nic.in विभागीय वेव साईट www.oldupexcise.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

(अनुराग मिश्र) जिला आबकारी अधिकारी, अमरोहा

(बालकृष्ण त्रिपाठी) जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी अमरोहा

Year Ended

Quarter Ended

\\$\%/ JUBILANT

Jubilant Industries Limited

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, Distt. Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24100UP2007PLC032909 Website: www.jubilantindustries.com | E-mail: investorsjil@jubl.com | Ph.: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021 (₹ in Lakhs)

No.	Particulars	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	21,158	19,710	9,381	62,148
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items) from continuing operations	2,743	673	(272)	2,592
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items) from continuing operations	2,743	673	(272)	2,592
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items from continuing operations	2,185	(2,775)	(272)	(856)
5.	Net Profit/(Loss) for the period from discontinued operations	(42)	46	(38)	(73)
6.	Net Profit/(Loss) for the period from continuing operations and discontinued operations	2,143	(2,729)	(310)	(929)
7.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,153	(2,727)	(343)	(956)
8.	Equity Share Capital	1,503	1,503	1,503	1,503
9.	Reserves excluding Revaluation Reserve				7,000
10.	Earnings per share of ₹ 10 each from continuing operations				
	(a) Basic (₹)	14.54	(18.47)	(1.82)	(5.70)
	(b) Diluted (₹)	14.45	(18.47)	(1.82)	(5.70)
	Earnings per share of ₹ 10 each from discontinued operations				
	(a) Basic (₹)	(0.28)	0.30	(0.24)	(0.49)
	(b) Diluted (₹)	(0.28)	0.30	(0.24)	(0.49)
	Earnings per share of ₹ 10 each from continuing operations and discontinued operations				
	(a) Basic (₹)	14.26	(18.17)	(2.06)	(6.19
	(b) Diluted (₹)	14.17	(18.17)	(2.06)	(6.19

Place: NOIDA

Date: 05th August, 2021

1. The Standalone Financial Results are available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key Standalone Financial information of the Company is as

	٠.				Year Ended				
	SI No.	Particulars	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021			
	140.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)			
	1.	Total Revenue from operations	-	-	-	-			
	2.	Profit/(Loss) for the period before tax from continuing operations	-	-	-	-			
	3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	-	-	-	-			
	4.	Net Profit/(Loss) for the period from discontinued operations	(40)	48	(36)	(41)			
	5.	Net Profit/(Loss) for the period from continuing operations and discontinued operations	(40)	48	(36)	(41)			
2 7	The above unaudited financial results were subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company reviewed by the Audit								

- Committee and approved and taken on records by the Board of Directors at its meeting held on 05th August, 2021 3. The above is an extract of the detailed format of the unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021, filed
- with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited consolidated & standalone financial results for the guarter ended June 30, 2021 alongwith review report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com for Jubilant Industries Limited

Manu Ahuia CEO & Managing Director मत्स्य पालन हेत् तालाब आवटन शिविर सुचना

क्रं०सं०	जनपद	तहसील	सम्बन्धि	रत तालाब की अ	वस्थिति
SI OFFICE	011144	, cleaner	राजस्व ग्राम	गाटा सं0	क्षे० हे०
1	· 2	3	4	5	1
1	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	वसावनपुर	2क	
2	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	जलालपुर खालसा	219	0
3	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	इग्राह	173	0
4	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	मासूमपुर	82	1
5	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	दोदराजपुर	147	0
6	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	जलालपुर खालसा	173,174	
7	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	बथुवाखेडा	83	0
8	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	रूपपुर टण्डोला	305	1
9	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	उसमानपुर	69	
10	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	बैरमपुर	265	0
11	, मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	डिलारी	106	. 0
12	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	जियाउददीनपुर	48	0
13	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	जहांगीरपुर	124	0
14	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	भवालपुरा	271	0
15	भूरादाबाद	ठाकुरद्वारा	अल्हेपुर	62	0
16	नुरादाबाद मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	अल्हेपुर	37	0
17	नुरादाबाद मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	बहेडी ब्रहमनान	173	- 0
18	नुरादाबाद मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	अदलपुर	279,280	0
19	नुरायाबाद मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	ततारपुर	68/3	0
20			मानपुर दत्तराम	129	1
	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	दौलावाला	78	-
21	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	प्रीतमपुर	147	1
22	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	प्रातनपुर सिढवली	44	0
23	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	डिलारी	872	
24	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	डिलारी		0
25	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा		266	0.
26	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	गोविन्दपुर	196	0.
27	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	अदलपुर	274	0.
28	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	गुतावली मझोली	111	0.
29	. मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	धारूपुर फजलपुर	42	0.
30	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	लालापुर पीपलसाना	487	0.
31	. मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	लालापुर पीपलसाना	521	
32	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	लालापुर पीपलसाना	1049	0.
33	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	रतुपुरा	613	1.1
34	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	रतुपुरा	1031	0.9
35	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	रतुपुरा	928	0.8
36	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	रतुपुरा	842	1.0
37	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	कमालपुरी खालसा	67	0.2
38	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	हुमायूँपुर	200	0.
39 .	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	गज़रौला सैद	204	0.2
40	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	अकबरपुर	123	0.2
41	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	मुण्डिया मोहिउददीनपुर	667,669	0.3
42	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	रूपपुर टण्डोला	427 / 1 479	0.3
43	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	पीपली उमरपुर	80 / 322	0.3
44	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	वैरमपुर	145	0.2
45	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	फरीदपुर हाजी	145	0.4

0.773 खैरूल्लाप 0.393 ठाक्रद्वारा विजयरामपुर 50 मरादाबाद ठाकुरद्वारा 275 मुरादाबाद गोपीवाल ठाकरद्वार 51 फरीटनगर 959 0.283 ठाकुरद्वारा 52 मुरादाबाद फरीदनगर 632 1.508 मुरादाबाद 53 फरीदनगर 1058 0.239 224 शिवनगर 0.34 ठाकरद्वारा शिवनगर 0.535 56 मुरादाबाद ठाकरद्वारा 232 0.535 57 मरादाबाद ठाक्रद्वारा 131क मुरादाबाद ठाकरद्वारा 58 205 ठाकुरद्वारा मुरादाबाद 59 रूपपुर टण्डीला 502 ठाकुरद्वारा 0.376 60 मुरादाबाद मुरादाबाद 87 0.291 61 मल्हपुर लक्ष्मीपुर 72 0.218 मुरादाबाद मल्हपुर लक्ष्मीपुर 250 0.348 63 ठाकुरद्वारा मुरादाबाट मल्हपुर लक्ष्मीपुर 252 ठाकुरद्वारा 0.251 मल्हपुर लक्ष्मीपुर 0.515 65 मुरादाबाद ठाकरद्वारा मल्हपुर लक्ष्मीपुर 387 66 मुरादाबाद ठाकुरद्वारा 67 मरादाबाद ठाकुरद्वारा लौंगीकल 53 68 मुरादाबाद लौंगीकल 42 1.003 70 मरादाबाद ठाकुरद्वारा रामुवाला गनेश 122 0.384 रामूवाला गनेश 48 71 मरादाबाद ठाकरद्वारा 0.421 38 72 मरादाबाद ठाकरद्वारा रमनावाल 0.611 68 टांडा अफज 0.206 73 मरादाबाद ठाकुरद्वारा मधुपुरी 74 मरादाबाद ठाक्रद्वारा 407 बहादुरनग 0.308 75 मुरादाबाद ठाकुरद्वारा 409 76 मुरादाबाद ठाकुरद्वारा 138 पीपली अहीर ठाकुरद्वारा 77 मुरादाबाद 141 0.13 मुरादाबाट 78 ठाकुरद्वारा पृथ्वीपुर गांमडी 142 0.085 ठाक्रस्ट्रारा 79 मरादाबाद ठाकुरद्वारा पृथ्वीपुर गांमडी 143 0.174 मुरादाबाद 80 131 0.239 मुरादाबाद ठाकुरद्वारा 81 493 शरीफनगर 0.109 82 शरीफनगर 0.1183 मुरादांबाट राजपुर मिलव 407 ठाकुरद्वारा 85 मुरादाबाद ठाक्रद्वारा 223 पानुवाल 0.317 ठाकुरद्वारा मरादाबाद 0.482 ठाकुरद्वारा 87 मुरादाबाद 44 Fio 0.656 ठाकुरद्वारा सबलपुर 88 मुरादाबाद-655 मि0 भायपर 0.308 मरादाबाद 0.281 लालपर चौहा 140 90 लालपुर चौहान 205 ठाकुरद्वारा 23 मुरादाबाट ठाकुरद्वारा 19 मुरादाबाद करनपुर ठाक्रस्द्वारा 995 0.551 सहसपुरी मरादाबाद ठाकुरद्वारा 20 जुल ढिकर 0.209 95 भरादाबाद ठाकुरद्वारा 524 0.279 ठाकुरद्वारा 96 मरादाबाद 812 0.659 ठाकुरद्वारा काजीपुर मुरादाबाद 97 महस्वाल 295 0.506 मुरादाबाद 98 अमानताबाद 53 0.133 99 मुरादाबाद 58 मुरादाबाद अमानताबाद 0.061 100 0.129 अमानताबाद 60 101 मुरादाबाद 250 महमदपुर लाल 0.636 मरादाबाट ठाकुरद्वारा सरकडा खास 103 मुरादाबाद मासूमपूर ठाक्रद्वारा मुरादाबाद 191/5 करनावाला खालस ठाकुरद्वारा 105 अलियाबाद 0.684 मुरादाबाद ठाकुरद्वारा 170ख 0.761 मुरादाबाद ठाक्रद्वारा कुल योग 50.124 ें आवंटन / नीलामी की शर्ते निम्नवत होंगी : — — ं आवंटन / नीलामी की शर्ते निम्नवत होंगी : — — ं आवंटन / नीलामी की शर्ते निम्नवत होंगी : — 1. नीलामी में मध्रुआ समुदाय के लोगों को वशेयता दी जायेगी। 2. मध्रुआ समुदाय के एक से अधिक बोली दाता उपस्थित होने की दशा में शिविर में उपस्थित मध्रुआ समुदाय के व्यक्ति के इच्छुक न होने अध्यत अपुरिस्त रहने की दशा में प्रमुख्य के व्यक्ति के की व उच्चतम बोली के आधार पर पट्टा दिया जायेगा। 4. नीलामी की उच्चतम बोली हुटने पर नीलामी के प्रथम वर्ष के लगान की धनराशि बोली दाता को उसी दिन जमा करनी होगी। 5. प्रत्येक बोली बोलने वाले को जमानत की धनराशि रूठ 0 1000 ∕ —जमा करनी होगी।

उपजिलाधिकारी ठाकुरद्वारा

UP-166044, Dt. 04.08.2021, Website : www.upgov.nic.in

मुंगेर में बच्ची से दुष्कर्म, आंखें निकार्ली **मुंगेर।** सफियाबाद ओपी क्षेत्र शव को पोस्टमार्टम के लिए के पूर्वी टोला फरदा में दरिंदों ने आठ वर्षीय मासूम के साथ

करेगी।

दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी आंखें निकालकर उसकी हत्या कर दी और शव को ईंट भट्ठा के समीप फेंक दिया। बुधवार से लापता बच्ची का गुरुवार की सुबह शव मिला। सुचना मिलते ही एसडीपीओ सदर नंदजी प्रसाद पुलिस बल के साथ

सदर अस्पताल लाया। मामले में मृतक बच्ची के पिता के आवेदन पर अज्ञात आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शीशम के पेड़ के समीप एक घटनास्थल पर पहुंचे और बच्ची की लाश फेंकी हुई है।

गुरुवार की सुबह पूर्वी टोला फरदा के कुछ बच्चे शौच के लिए गंगा किनारे जाने के लिए निकले थे। जब बच्चे उपेंद्र यादव के ईंट भट्टा के समीप पहुंचे, तो देखा कि